

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 404]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त 2023 — श्रावण 27, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 अगस्त 2023

आदेश

क्र. 9874 / 2572 / 21-ब / छ.ग. / 2023.— राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक / अतिरिक्त लोक अभियोजक, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के पद पर आदेश क्रमांक 9347 / 1049 / 21-ब / छ.ग. / 2019 दिनांक 12-09-2019 के जरिये श्री न्याजी खान को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए 01 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा उक्त परीक्षा अवधि पूर्ण कर ली गई है, जिसके उपरान्त शासन द्वारा उनकी कार्य अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री न्याजी खान को राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 16-09-2020 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक / अतिरिक्त लोक अभियोजक, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा नियुक्त करता है।

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैनुअल में निर्धारित अनुसार होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.पी.सोहगौरा, अवर सचिव.